



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2020

कार्तिक 5, 1942 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,  
ASHOKA ROAD,  
NEW DELHI-110001

No. 3/4/ID/2020/SDR/VOLII

Dated: 19<sup>th</sup> October, 2020,

### CORRIGENDUM

In the Hindi Version of the Commission's Order No. 3/4/ID/2020/SDR/VOLII, Dated 14<sup>th</sup> October, 2020 under item no.(iii) of the Para 7 for the phrase "बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड" the phrase "बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक" shall be substituted.

By order,  
N.T. BHUTIA,  
*Secretary.*

By order,  
AJAY KUMAR SHUKLA,  
*Secretary.*

**भारत निर्वाचन आयोग**

सं० 3/4/आई.डी/2020/एस.डी.आर./खण्ड-II

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001  
दिनांक- 19 अक्टूबर, 2020,**शुद्धिपत्र**

आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी/2020/एस.डी.आर./खण्ड-II दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 7 के मद सं० (iii) में "बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड" के स्थान पर "बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक" को प्रतिस्थापित किया जाए।

आदेश से,  
एन०टी० भूटिया,  
सचिव।आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव।